



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2007/माघ 24, 1928

No. 153]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2007/MAGHA 24, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2007

का.आ. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 571(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के अलवर जिले के शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 115.000 कि.मी. से 116.000 कि.मी. (गुड़गाँव-कोटपुतली) तक के भूखण्ड पर 115.500 कि.मी. पर टोल प्लाजा (सोलह लेन) के निर्माण के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 13 जुलाई, 2006 को "दैनिक भास्कर" और तारीख 15 जुलाई, 2006 को "राजस्थान पत्रिका" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को 22 व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे; 20 आक्षेप अननुज्ञात कर दिए गए थे, 1 आक्षेप अनुज्ञात किया गया था तथा 1 आक्षेप आंशिक रूप से अनुज्ञात और आंशिक रूप से अननुज्ञात किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्तीय मामलों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 115.000 कि.मी. से 116.000 कि.मी. तक (गुड़गाँव-कोटपुतली सेक्शन) के लिए टोल प्लाजा के निर्माण हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलवर	बहरोड	शाहजहाँपुर	536	सरकारी	गै0मु0 रास्ता	0.0300	सिवायचक लगानी
				573	सरकारी	गै0मु0 रास्ता	0.0400	सिवायचक लगानी
				552	निजी	बा0 द्वितीय	0.0400	अमरसिंह पुत्र महाताबसिंह मीना सा0 देह खातेदार
				576	निजी	बा0 द्वितीय	0.0700	इन्द्र, रामोतार पिता मामराज मीना सा0 देह खातेदार
				563	निजी	बा0 द्वितीय	0.0800	उमराव पुत्र रामनारायण कोम
				575	निजी	बा0 द्वितीय	0.3400	मीना सा0 देह खातेदार
				534	निजी	बा0 द्वितीय	0.9500	ओमप्रकाश पुत्र इन्द्रसिंह 1/3,
				535	निजी	बा0 द्वितीय	0.2000	दीपचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
				538	निजी	बा0 द्वितीय	0.0200	1/5, सावित्री, गायत्री, माफी, चौथी, पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण
				558	निजी	बा0 द्वितीय	0.1000	4/5 दर 1/3, शकुन्तला पुत्री चम्पा बेवा हरसहाय 1/3 मीना सा0 देह खातेदार

				138	निजी	बा० द्वितीय	0.1200	कवरसिंह पुत्र भगवानसिंह मीना सा० देह खातेदार
				442	बिजी	बा० द्वितीय	0.0500	परती बेवा बनारसी
				444	निजी	बा० द्वितीय	0.1100	1/12 कैलाशचन्द रोहितास पि. बनारसी 2/3 मु. चमेली बेवा बद्री, मनोजकुमार पुत्र बद्री 1/4 खटीक सा० देह खातेदार
				146	निजी	बा० द्वितीय	0.4900	परती बेवा बनारसी
				443	निजी	बा० द्वितीय	0.2600	1/6, कैलाशचन्द, रोहितास पि. बनारसी 5/6 को. खटीक सा० देह खातेदार
				143	निजी	बा० द्वितीय	0.2000	फूलसिंह पि. मु.
				2521	निजी	बा० द्वितीय	0.1300	प्रभाती 1/2, महिपाल पुत्र
				445	निजी	बा० द्वितीय	0.0700	फूलसिंह 1/2 सा.देह खातेदार
				446	निजी	बा० द्वितीय	0.1800	
				447	निजी	बा० द्वितीय		
				554	निजी	बा० द्वितीय	0.2300	बहादुरसिंह गिराज पि. मूलचन्द स०
				562	निजी	बा० द्वितीय	0.2000	भा० कौम मीना सा० देह खातेदार
				574	निजी	बा० द्वितीय	0.0500	मुर्तहीन बहादुर सिंह के हिस्से पर 1/2,
				139	निजी	बा० द्वितीय	0.4500	यादराम, लक्ष्मण सिंह पि. हाथीसिंह
				140	निजी	बा० द्वितीय	0.1900	मीना सा० देह खातेदार
				533	निजी	बा० द्वितीय	0.0600	

			530	निजी	बा०	0.1100	मूर्तिबेवा हरचन्द,
			531	निजी	द्वितीय बा०	0.0600	किशनलाल, शेरसिंह धोलसिंह, धर्मपाल, शीशराम पिता हरचन्द अहिर 1/2, रामपत पु. गोरधन 1/2
			602	निजी	जा०	0.0300	राजकली बेवा
			2512		द्वितीय		रामदत्त व
			603	निजी	गैर मु०	0.0100	चन्द्रकान्ता पुत्री
			604	निजी	चाह गैर मु०	0.0800	रामदत्त ब्रह्मण सा० देह खातेदार
					तीबारा		
			141	निजी	बा०	0.1400	हरिपाल, सुखपाल,
			529	निजी	द्वितीय बा०	0.1400	धर्मपाल पि० नत्थूसिंह, कमला,
			532	निजी	द्वितीय बा०	0.6400	बिमला पुत्रीयान नत्थुसिंह सा० भा० कौम मीना सा० देह खातेदार
					द्वितीय		
			142	निजी	गैर मु०	0.0100	चन्द्र, नत्थु पि.
			143	निजी	चबुतरा बा०	0.2800	बिलासिया 2/3 मुव मेवली बेवा सुण्डाराम सन्तरा पुत्री सुण्डाराम कौम खटीक 1/3 सा० देह खातेदार
					द्वितीय		
			539	निजी	बा०	0.3000	जवाहर पुत्र उमराव 3/4, मदन लाल पुत्र उमराव 1/4, मीना सा० देह खातेदार
					द्वितीय		
			589	निजी	जा०	0.4600	मनोहरलाल खुराना पुत्र राम शरणदास खुराना म.न. 8670/14बी सिद्धपुरा करौल बाग नई दिल्ली व रामकुमार पुत्र
			2547		द्वितीय		

								रूपचन्द 3 जी. मोतियाखान देहली खातेदार
				553	निजी	बा०	0.1300	सरवण बेवा
				602	निजी	द्वितीय चाही द्वितीय	0.2000	अमिलाल, तेजसिंह, राजेन्द्र पिता अमिलाल 1/2, रामोतार नवीरा सेवा 1/2, अहीर सा० देह खातेदार फौलादपुर ई० न० 1270 दि० 29/8/05 किस्म वीरासत सरवण बेवा अमिलाल फौत उसके वारिस तेजसिंह राकेश पुत्रान अमीलाल व सरोज शीला पुत्री अमिलाल स० भा० के नाम स्वीकृत मु० जमाबन्दी बाकी बदस्तुर हि०
				537	निजी	बा०	0.0500	सुलतान सिंह पुत्र
				559	निजी	द्वितीय गैर मु०	0.0200	सिंहराम जोट सा० जाट बहरोड़ त०
				561	निजी	चाह चाही द्वितीय	0.6900	मुण्डावर 1/2 विला रहन मु० चमेली बेवा प्रहलाद सिंह राजेन्द्रसिंह कृष्ण कुमार सिकन्दर सत्यवीर पिता प्रहलाद सिंह मीना 1/4 विरेन्द्र सिंह पुत्र भवरसिंह 1/4 मीना सा० देह खातेदार राहिन अलवर स० भू० विकास बैंक लि० मूर्तहिन
				589	निजी	जाव द्वितीय	0.0300	मनोहरलाल खुराना पुत्र

479 GI/07-2

							रामसरणदास खुराना सा. दिल्ली, रामकुवर पुत्र रूपचन्द जाति धानक सा० दिल्ली त० दिल्ली खातेदार.
कुल योग 43						8.0400 हेक्टेयर	

[फा. सं. भाराप्र/सीएम-IV/एलए/कोटपुतली/2005]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2007

S.O. 188(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 571 (E), dated the 18th April, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza (sixteen laning) at km 115.500 on the stretch from Km. 115.000 to Km.116.000 (Gurgaon-Kotputli) of National Highway No.8 in Shahjahanpur in District Alwar, in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhasker", dated the 13th July, 2006 and in "Rajasthan Patrika", dated the 15th July, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the objections from 22 persons have been received; 20 objections were disallowed, 1 objection was allowed and 1 objection was partially allowed and partially disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land for construction of toll plaza from Km. 115.000 to Km. 116.000 (Gurgaon-Kotputli Section) on the National Highway No. 8 in the state of Rajasthan.

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of the land owner.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alwar	Behror	Shahjahanpur	536	Govt.	Gair M Rasta	0.0300	Shivayachak Lagani
				573	Govt.	Gair M Rasta	0.0400	Shivayachak Lagani
				552	Private	Barani-II	0.0400	Amar Singh S/o Mahatabh Singh Meena
				576	Private	Barani-II	0.0700	Inder, Ramotar S/o Mamraj Meena
				563	Private	Barani-II	0.0800	Umrao S/o Ramnarayan Meena
				575	Private	Barani-II	0.3400	
				534	Private	Barani-II	0.9500	Omparkash S/o
				535	Private	Barani-II	0.2000	Inder Singh 1/3,
				538	Private	Barani-II	0.0200	Deepchand S/o
				558	Private	Barani-II	0.1000	Laxminarayan 1/5, Savitri, Gayatri, Maphy, Chouthy D/o Laxminarayan 4/5 dar 1/3, Sakuntala D/o Champa widow Harsahay 1/3 Meena
				138	Private	Barani-II	0.1200	Kawar Singh S/o. Bhagwan Singh Meena
				442	Private	Barani-II	0.0500	Parti widow
				444	Private	Barani-II	0.1100	Banarsi 1/12,

								Kailash Chand, Rohitash S/o Banarasi 2/3, Chameli widow Badri Manoj kumar S/o Badari Khatik 1/4
				146 443	Private Private	Barani-II Barani-II	0.4900 0.2600	Parati widow Banarsi 1/6, Kailash , Rohitash S/o. Banarsi 5/6 Khatik
				143 2521	Private	Barani-II	0.2000	Phoolsingh S/o Prabhathi 1/2,
				445	Private	Barani-II	0.1300	Mahipal S/o
				446	Private	Barani-II	0.0700	Phoolsingh 1/2
				447	Private	Barani-II	0.1800	
				554	Private	Barani-II	0.2300	Bahadur Singh
				562	Private	Barani-II	0.2000	Girraj S/o
				574	Private	Barani-II	0.0500	Moolchand Meena, on part of Bahadur Singh 1/2
				139	Private	Barani-II	0.4500	Yadram,
				140	Private	Barani-II	0.1900	Laxman Singh
				533	Private	Barani-II	0.0600	S/o Hathiram Meena
				530	Private	Barani-II	0.1100	Murati widow
				531	Private	Barani-II	0.0600	Harchand, Kishanlal, Sher Singh, Dhol Singh , Dharampal , Shis Ram S/o Har Chand Ahir 1/2, Rampat S/o Gordhan 1/2
				602 2512	Private	Jaw-II	0.0300	Rajkali widow Ramdatt & Chander kanta

			603	Private	Gair M. Chah	0.0100	D/o Ramdatt Brahman.
			604	Private	Gair M. Tibara	0.0800	
			141	Private	Barani-II	0.1400	Haripal, Sukhpal
			529	Private	Barani-II	0.1400	Dharampal S/o
			532	Private	Barani-II	0.6400	Nathu Singh, Kamla, Bimla D/o Nathu Singh Meena
			142	Private	Gair M. Chabutra	0.0100	Chander Nathu S/o Bilasia 2/3,
			143	Private	Barani-II	0.2800	Mewali widow Sundaram Santra D/o Sundaram Khatik 1/3
			539	Private	Barani-II	0.3000	Jawahar S/o Umrao 3/4, Madan Lal S/o Umrao 1/4 Meena
			589 2547	Private	Jaw - II	0.4600	Manoharlal Khurana S/o. Ramsaran khurana H.No. 8670/14 B Shidhpura Karolbag, N.D. Ramkumar S/o Roopchand 3G Motiyakhan Delhi.
			553 602	Private Private	Barani-II Chahi-II	0.1300 0.2000	Sarvan widow Amilal, Tejsingh Rajender S/o Amilal 1/2, Ramotar Navira sewa 1/2 Ahir R/o Pholadpur E.No.1270 dt. 29.8.2005 Morg Sarvan widow Amilal

479 GI/07-3

								dependents Tej Singh Rakesh S/o. Amilal & Saroj D/o Amilal
				537	Private	Barani-II	0.0500	Sultan Singh
				559	Private	Gair M. Chah	0.0200	S/o Singhram
				561	Private	Chahi-II	0.6900	Jat R/o. Jat Behror Teh. Mundawar 1/2 Morg. Chameli widow Prahalad Singh, Rajender Singh, Krishan kumar Sikandar Satvir S/o Prahalad Singh Meena 1/4 Virender Singh S/o Bhawarsingh Meena 1/4 R/o. Alwar
				589	Private	Jaw II	0.0300	Manoharlal Khurana S/o Ramsaran Khurana R/o Delhi, Ramkuwar S/o. Roopchand Dhanak R/o. Delhi.
			Total	43			8.0400 Hectares	

[F. No. NHAI/CM-IV/LA/Kotputli/2005]

PRABHAKAR, Dy. Secy.